

**BCC FUBA INDIA LIMITED** 

Corporate Office: House No.97 4th Floor Bahubali Enclave, Near Ram Mandir, opp. Cross River Mall, Delhi - 110092, India P: +91-11- 49287223

P: +9 CIN:L51395HP1985PLC012209

E: delhi@bccfuba.com

Date: 26-08-2023

The Manager, Corporate Relationship Department, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

> Scrip Code: 517246 Security Id: BCCFUBA

Subject: - <u>Public Notice (Newspaper Advertisement) after sending the notices and copies of the</u> financial statements of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting

Dear Sir,

In terms of General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), the Company has given a public notice by way of advertisement in newspaper after sending the notices and copies of financial statements of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of the company and as per the provisions of Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the notice published in the following newspapers:

- Financial Express (National daily newspaper- All English Edition), on 26th August 2023.
- Jansatta (Daily newspaper- Hindi Edition), Himachal Pradesh on 26<sup>th</sup> August 2023.

This is for your kind information and records.

Thanking you. Yours faithfully,

### For B C C Fuba India Limited

ABHINAV Digitally signed by ABHINAV BHARDWAJ Date: 2023.08.26 12:33:22 +05'30'

Abhinav Bhardwaj Director DIN 06785065 Address : 4/61, Ist Floor, Roop Nagar Malka Ganj S.O, North Delhi 110007

Encl: As above.

**FINANCIAL EXPRESS** 

Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of M/S GREEN INFRA WIND SOLUTIONS LIMITED having its registered office at 5th Floor, Tower C Building No. 8, DLF Cyber City, Gurugram-122002 Haryana, India,

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 28th Day of July, 2023 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, B-2, Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copto the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

5th Floor, Tower C, Building No. 8, DLF Cybe City, Gurugram-122002, Haryana, India For and on behalf of the Applicant

Date: 24th August 2023 Siddhartha Sengupta Place : Gurugram Directo DIN: 05270854 Complete address of registered office : 5th Floor, Tower C, Building No. 8, DLF Cyber City, Gurugram-122002, Haryana, India



POSSESSION NOTICE Under Rule 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the

any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all

SL NO	NO TICH PATE OF THE PROPERTY POSSESSED			DATE OF POSSESSION	
[A]	[B]	[C]	[D]	(E)	[F]
	Loan A/c No. X0HEDHE00001115825 & X0HEEDL00001429038 ) 1. SANDEEP GOSWAMI At: H.NO-132, 3rd Floor, Chitra Vihar	4.08.2017	Rs. 33,999.95/- 24.08.2017	Property admeasuring 68.75 sq.mtrs., bearing Property No. C-3/343, Block-C-3, situated in the layout plan of Yamuna Vihar, Shahdara, New Delhi.	5-AUG-2023 PHYSICAL

Also At: Property No. 158, Block-B-4, Yamuna Vihar Shahdara, New Delhi - 110053 2. DIVYA VERMA

At: H.NO-132, 3rd Floor, Chitra Vihar Shakarpur, New Delhi - 110092

UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED **Corporate Office: Centrum House, Vidyanagari Marg,** Kalina, Santacruz (E) Mumbai – 400 098

# SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on 19/06/2023 (read with Corrigendum dated 19-06-2023) calling upon the borrower and guarantors to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said

(for immovable properties) See Rule 8(1)

The borrower and guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Act on 24/08/2023.

The borrowers and guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Unity Small Finance Bank Limited for the amount and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-Section 8 of Section-13 of the Act, in respect

of time available, to redeem the secured assets. | Borrowers / Guarantors | Description of the properties mortgaged Amount 0/s

1. Yogesh N All that piece and parcel Property No. X/674, Rs. 18,37,539.72/admeasuring area 68 Sq Yds, i.e. 54.34 Sq. Mtrs. (Rupees Eighteen 2. Chintu N Plinth/Covered area, 54.34+54.34 Sq. Mtrs, Lakhs Thirty-Seven 3. Darshna D consisting of two room set on ground floor, two Thousand Five 4. Kanta N room set on first floor, with terrace rights, with right Hundred Thirtyof upper construction upto the last storey, fitted with Nine and Paise electricity, Tap waters with Meters, out of khamra Seventy-Two Only] No.594/74, situated at Gali No.7, Raghubrpura as on 15/06/2023 No.01, Gandhi Nagar, in the area of Village plus applicable Seelampur, Illaga Shahdara, Delhi- 110031 and interest and other bounded by Boundaries (As Per Sale Deed) charges.

Property, South: Others Property of Shri Chet Ram Date: 26/08/2023 Place: Shahdara, Delhi (Authorised Officer), Unity Small Finance Bank Limited

East : Gali, West : Others Property, North : Others

### NDT TRADE HOUSE PVT LTD (IN LIQUIDATION) Liquidator's Address: B-572, Sainik Colony, Sector-49, Faridabad Haryana-121001,

Email ID: liq.ndttradehouse@gmail.com E-AUCTION SALE NOTICE Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code

2016 and regulation thereunder, that the assets of the Corporate Debtor as going concern as stated in Table below, will be sold by E-Auction through the service provider M/s eprocurement Technologies Limited (Auction Tiger) - via website http://www.auctiontiger.in

Date and Time of Auction Thursday, 28.09.2023 between 01:00 P.M. to 02:00 P.M. Last Date for Submission 26.09.2023 before 05:00 P.M.

Inspection Date & Time On 25.09.2023 between 11.00P.M. to 04:00 P.M. The person to be contacted for inspection is Mr Rakesh Bhatia

Reserve EMD (Rs.) Incrementa Lot **Particulars** No. Price (in Lacs) Bid (in Lacs) (in Lacs) Whole Unit including Land & Building 176 17.6 2 having Built-up area of 823 Sq meter

situated at Khata No 71/76 Mustil No-51 Kila no 13/3/1/2/ (2-0) Village- Mitrol Tehshil Hodal Dist. Palwal, Haryana and Plant & machinery which is basically a Atta Plant The EMD (Refundable) shall be payable by interested bidders through NEFT/RTGS on or before-26.09.2023 in an account of "NDT TRADE HOUSE PVT LTD" having Account No. 923020016427718 and IFSC Code UTIB0004305. For detailed terms & conditions of E-

auction sale, refer TENDER DOCUMENTS available or https://ncltauction.auctiontiger.net . For any query regarding E-Auction, contact Mr. Praveen kumar Thevar (M: 6351896834) on praveen.thevar@Auctiontiger.net o Liquidator

his e- mail at liq.ndttradehouse@gmail.com Contact Person:Mr Rakesh Bhatia-Mob:9310278000

> Liquidator for NDT Trade House Pvt Ltd (In Liquidation. IP Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724 AFA No: AA2/11724/02/191223/202515

Arun Gajwan

Date : 25.08.2023

BCC

fuba

Place: New Delhi

## B C C FUBA INDIA LIMITED

Read, Office: 4 KM Swarghat Road, Nalagarh 174101, Distt Solan, (H.P.) Tel. No.: +91-011-49287223, Website: www.bccfuba.com,

Email id : delhi@bccfuba.com

REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 20" day of September, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, 02/2022 dated 5th May, 2022 and Circular issued on February 2022 dated 30 May, 2022 read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5" May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, 19/2021 dated 8th December, 2021 and 21/2021 dated 14th December, 2021 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) to conduct the

Stock exchange at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Regulations, 2015, the company is providing to its members, facility to exercise their vote on resolutions as set out in the Notice. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited (LIIPL) for providing remote e-voting facility. The facility of voting through electronic means will also be available at the AGM and only those members who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote at the AGM. The details and instructions for remote e-voting and voting at the AGM forms part of Notice emailed to the shareholders.

The remote e-voting period will commence on Sunday, 17" September, 2023 at 9:00 A.M. and will end on Tuesday, 19" September, 2023 at 5.00 P.M. A person whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on cut-off i.e. Wednesday,13<sup>th</sup>

meeting are provided in the Notice of Annual General Meeting and members holding shares either in physical or demat form, as on the cut-off date may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of AGM. The members who have cast their vote through remote e-voting, prior to the meeting can attend the AGM but are not entitled to cast their vote again. In case of any queries or issues regarding e-voting, the members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in , under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us:- Tel: 022-49186000.

closed from Thursday, 14th September, 2023 to Wednesday, 20th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of this AGM.

In case shareholders/ members have any queries regarding login, they may send an email to instarneet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.

Date: 26-08-2023 Dinesh Kumar Yadav Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001 Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -110 005.

undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 3 of the Rules made The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and

costs, charges and expenses before notification of sale

Shakarpur, New Delhi - 110092 Also At: Property No. C-3/343, Block-C-3, Yamuna Vihar Shahdara, New Delhi -

Date: 26/08/2023 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

Form No. INC-25A Advertisement to be published in the

newspaper for conversion of public company into a private company BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR. MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NORTHERN REGION, NEW DELHI IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT.

2013, SECTION 14 OF COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 41 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014 IN THE MATTER OF CHANDRA LAKSHMI

SAFETY GLASS LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT D-3 PRASHANT VIHAR, NEW DELHI-110085,

Notice is hereby given to the general public that

the company intending to make an application to the Central Government (Regional Director, Northern Region) under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 31.07.2023 to enable the Company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change/status of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region at B-2 Wing, 2nd Floor, Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: CHANDRA LAKSHMI SAFETY GLASS LIMITED

REGISTERED OFFICE: D-3. PRASHANT VIHAR, NEW DELHI-110085 FOR AND ON BEHALF OF THE APPLICANT

NAMRATA KHEMKA PLACE: NEW DELHI DATE: 25.08.2023 DIN: 00940199

FORM NO. INC 26 pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the Newspaper for change of registered office of the Company from one state to another BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT

(REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION) NEW DELHI In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013, and clause (a) of sub-rule (6) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules,

n the matter of PIONEER PLASTIC INDUSTRIES LIMITED (CIN: U25209DL1982PLC014107) having its registered office at A-135, Okhla

Industrial Area, Pase-II, New Delhi 110020

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government, power delegated to Regional Director, Northern Region, New Delh under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the 01/2023-24 Extra Ordinary General Meeting held on Friday 30th June 2023 to enable the company to change its Registered Office from "the Union Territory of New Delhi" to the "State of West

the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 porta (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered posof his/her objections supported by an affidavi stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Regional Director, Northern Region at the address, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendaya Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address

PASE-II, NEW DELHI 110020 For and on behalf

Date: 25.08.2023

DIRECTOR (DIN - 00008112) Place- New Delhi



Tele No.: 0761-2611336 Email address: cs@jupiterwagons.com Website:ww.jupiterwagons.com NOTICE OF 43" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 43" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Jupite Wagons Limited (formerly Commercial Engineers & Body Builders Co Limited) ("the Company") for the F.Y. 2022-23 will be held on Tuesday, September 19, 2023 at 02:30 P.M. through electronic mode video conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")] without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/ 2020 dated April 8,2020, General Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No.02/ 2022 dated May 5, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No.SEBI/HO/CFD/POD-2/CIR/P/2023/4 dated January 5, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (hereinafter collectively referred to as 'AGM related circulars'), to transact businesses set out in the Notice of AGM. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI Circular, the Company has completed dispatch of the Notice convening the 43" AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 on 25" August, 2023, through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.jupiterwagons.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseIndia.com and on the website of Share Transfer Agent of the Company viz. Kfin Technologies Limited

The Board of Directors of the Company in its meeting held on 25th May, 2023 recommended dividend of Rs. 0.50/- (5%) per equity share of face value of Rs. 10/- each for FY 2022-23, subject to approval of Members in the AGM. The dividend, upon approval by the Members, will be paid/dispatched to Members holding equity shares of the Company, either in electronic or in physical form as on the record date, i.e.12" September, 2023 for determining eligibility of Members to receive the dividend. Members are requested to update their Bank details as per instructions provided in the AGM Notice

Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 13" September, 2023 to Tuesday, 19" September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to ascertain the names of members who would be entitled to receive dividend, if

Pursuant to provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 12" September, 2023, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 43st AGM of the Company through e-voting platform of Kfin through their portal https://evoting.kfintech.com/or NSDL https://eservices.nsdl.com or CDSL, https://web.cdslindia.com/myeasi. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 43" AGM.

Remote e-voting through electronic means shall commence from 16<sup>th</sup> September, 2023 (9.00)

a.m.) and end on 18 September, 2023 (5.00 p.m.). Cut-off date for the purpose of e-voting shall be 12<sup>th</sup> September, 2023.

Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of Notice and who are eligible shareholders as on the cut-off date i.e.12" September, 2023, may contact Kfin tech on Einward,ris@kfintech.com or call on toll free 1800-309-4001 to obtain the

d. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. of 18<sup>th</sup>

Members present at the meeting through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The instructions for attending the AGM through VC/ OAVM are provided in the Notice of the AGM.

attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. In case of any grievance in connection with the facility for remote e-voting, the shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section/a-voting user manual for shareholders


technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

 Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

. Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact on 022-23058738 or 022-23058542-43 Members who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested toget them registered with Kfin, by completing the ISR1 form (as per SEBI guidelines) . The form can be obtained by following the link: https://karisma.kfintech.com/downloads/2Form ISR-1.pdf or at

toreceive timely communications. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting of votes through remote e-voting and

For Jupiter Wagons Limited (Formerly Commercial Engineers & Body Builders Co Limited)



POONAWALLA HOUSING FINANCE LTD. (FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LTD)

mortgaged to Magma Housing Finance Ltd has now been renamed as Poonawalla Housing Finance Ltd ('PHFL') vide Certificate of Incorporation,

the possession of which had been taken by PHFL's Authorised Officer under Sec 13(4)/14 of SARFAESI Act; will be sold through e-auction as per

terms mentioned below for recovery of PHFL's outstanding dues with applicable interest, charges, and costs etc. The property described below will

besold on "AS IS, WHERE IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" under Rule 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules.

For detailed T&Cs of sale, please refer to link provided in PHFL's/Secured Creditor's website i.e.www.poonawallahousing.com

SALE NOTICE REGISTERED OFFICE:602, 6TH FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. NO. 79/1, GHORPADI, MUNDHWA RÓAD, PUNE 411036 BRANCH OFF UNIT:8 SANT NAGAR, NEW DELHI.110065. E-AUCTION SALE NOTICE SALE OF SECURED IMMOVABLE ASSET UNDER SARFAESIACT Notice is hereby given to the public in general and to the Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors in particular, that under mentioned properties

-	PROPOSAL NO.	DEMAND NOTICE DATE	NATURE OF	DESCRIPTION	RESERVE	EMD (10%	EMD SUBMI	INCREME	PROPERTY I	DATE AND	KNOWN ENCU
	CUSTOMER NAME	AND OUTSTANDING	POSSE-	OF PROPERTY	PRICE	OF RP)	SSION DATE			TIME OF	BANCES/COU
0	(A)	AMOUNT {B}	SSION (C)		{E}	{F}	{G}	{H}	DATE&TIME (I)		
	LOAN NO. HM/0094/H/17/100302	Notice date: 13/07/2021 Total Dues: Rs. 18,32,876/-		ALL THAT PIECE AND PARCEL OF	Rs. 10,75,000/	Rs. 1,07,500/-		10,000/-	07-09-2023	14-09-2023	NIL
	SUMIT YADAV (BORROWER)	(Rupees Eighteen Lakh Thirty Two Thousand Eight	Physical	FROFERIT HOUSE	- (Rupees Ten Lakh	(Rupees One Lakh	Before 5 PM		(11AM 4PM)	(11AM 2PM)	
	VIDHYA DEVI (CO- BORROWER)	Hundred Seventy Six Only)		NO-93 BEARING AT KHASRA NO-335 &	Seventy	Seven Thousand					
	DINESH CHAND YADAV	payable as on 12/07/2021 along with interest @ 13.00%		336 SITUATED AT DREAM RESIDENCY	Five Thousand	Five					
	(CO-BORROWER)	p.a. till the realization.		MAUZA ITORA AGRA PIN 282001	Only)	Only)					
	For further details and queries on purchase and sale contact Mr. Shadab Akhtar at +91 9910453434										
	The intending hidders/nurchasers are advised to visit PHEL Branch and the auction properties, and make his own enquiry and ascertain additional charges, encumbrances and a										

The intending bidders/purchasers are advised to visit PHFL Branch and the auction properties, and make his own enquiry and ascertain additional charges, encumbrances and any third-party interests and satisfy himself/herself/itself in all aspects theretobefore submitting the bids. All statutory dues like property taxes, electricity/water dues and any other dues, i any, attached to the property to be ascertained and paid by the successful bidder.

The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which is mandatory for e-bidding, from auction service provider) C1 India PVT LTD. Address- Plot No-68 3rd floor Gurgaon Haryana-122003. Helpline Number- 7291981124,25,26 Support Email id Support@bankeauctions.com. Contact Person Vinod Chauhan, Email id-delhi@c1india.com Contact No-9813887931. Please note that Prospective bidders may avail online training on e-auction from them only. The intending purchaser/bidder is required to submit amount of the Earnest Money Deposit (EMD) by way of by way of NEFT/RTGS /DD in the account of "Poonawalla Housing Finance Ltd", Bank-ICICI BANK LTD. Account No-000651000460 and IFSC Code-ICIC0000006, 20, R. N. Mukheriee Road-Kolkata-700007 drawn on any nationalized or scheduled Bank on or before 13/09/2023 and register their name at https://www.bankeauctions.com and get user ID and password free of cost and get training on e-Auction from the service provider. After their Registration on the website, the intending purchaser/bidder is required to get the copies of the following documents uploaded, e-mail and sent self-attested hard copy to Authorized Officer, Mr. SUDANSHU SHARMA, Address-8 Sant Nagar, New Delhi.110065 Mobile no. +919953904004, e-mail ID: sudanshu.sharrma@poonawallahousing.com. **Authorised Officer Poonawalla Housing Finance Limited** PLACE: AGRA

(Formerly Known as Magma Housing finance Ltd)

केनरा बैंक Canara Bank Regional Office: **Aligarh** िंसिंडिकेट Syndicate POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under the Securitisation Act and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice along with interest & expenses within 60 days from the date

The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said Rules. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Canara Bank. The borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.

Guarantors	Immovable Properties	Demand notice	Posse-	Due (₹)
	Branch: Vikas Bhavan, Aligarh			
S/o Shri Anil Kumar Mahesh-wari, Add Mohalla Pathanan, Brahmanpuri, Chharra Rafatpur, Koil, Aligarh, 2. Mr. Anil Kumar	Flat No. 302, 3rd Floor in Residential Apartment "Sun Homes" Situated at Shankar Vihar Colony, Quarshi, Tehsil Koil, Distt. Agra, Area- 1385 Sq. Fts., Property in the name of Mr. Gaurav Maheshwari, Bounded as: East- Common Passage 7 Ft. Wide, West- Natraj Campus, North- Flat No. 303, South- Flat No. 301	15-04-2023	24-08-2023	21,10,138.86 as on 15.04.2023 + interest & Other expenses
	Branch: Atrauli, Aligarh			
Devi W/o Nanak Chand, Co-Borrower- Mr. Nanak Chand S/o Sarman Singh, Add. of both- H.No. 23, Umarao Ganj,	Residential Property Situated at H.No. 16 Mohalla Saray Devidas, Atrauli, Aligarh, Area- 169.65 Sq. Mts., Property in the name of Smt. Keta Devi W/o Nanak Chand, Bounded as: East- Road, West- House of Shri Rakesh Mukharia, North-House of Kallu, South- House of Jawahar Arora	01-06-2023	24-08-2023	5,88,881.54 + interest & Other expenses From 01.06.2023
Date : 26-08-2023			Auth	orised Officer

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. Registered Office at: - Shivalik Small Finance Bank Ltd.501, Salcon Aurum, Jasola district Centre, New Delhi, South Delhi, Delhi -110025 & Branch Office at Shivalik Small Finance Bank Ltd, Noida Sector-18, UP 201304

Open Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Shivalik Small Finance Bank Ltd., the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", As is What is" and

charges thereafter due to the Shivalik Small Finance Bank Ltd. secured creditor from 1. Mr. Rakesh (Borrower/Mortgagor) S/o Ghanshyam R/o- H.No. 92, Vill-Mahavad-1, Dadri, G.B. Nagar, U.P.2. Mrs. Rinki (Co-Borrower) W/o Mr. Rakesh R/o-H.No. 92, Vill-Mahavar-1 Dadri, G.B. Nagar, U.P. 3. Manoj Kumar (Guarantor) S/o Meer Chand R/o H. No. 94 Vill-Mahavar-1, Dadri GB Nagar UP. The reserve price will be Rs.5,04,000 (Rupees Five Lakhs Four Thousand Only) and the earnest money deposit will be 10% of Bid Amount i.e., 50,4,000/-(Rupees Fifty Thousand Four Hundred Only) the latter amount to be deposited with the Bank on or before 12th September 2023 by 5 PM. particulars of

which are given below: -Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) Demand Notice Date Description of the Reserve Earnest

	and Outstanding Amount as per Demand Notice	Immovable properties	Price	Money Deposit (EMD)
<ol> <li>Mr. Rakesh (Borrower/Mortgagor) S/o Ghanshyam R/o- H.No. 92, Vill- Mahavad-1, Dadri, G.B. Nagar, UP</li> <li>Mrs. Rinki (Co-Borrower) W/o Mr. Rakesh R/o-H.No. 92, Vill-Mahavar-1 Dadri, G.B. Nagar, UP</li> <li>Mr. Manoj Kumar (Guarantor) S/o Meer Chand R/o H. No. 94 Vill-Mahavar-1, Dadri GB Nagar UP. Loan Account No. (100741008225, 100746510045)</li> </ol>	Rs. 7,60,000/- (Rupees Seven Lakhs Sixty Thousand Only)	All the piece and parcel of the immovable properties bearing address- Freehold Residential Plot Measuring 100 sq. yrds. i,e. 83.61 Sq Mtrs. Situated at Khasra No. 117, Saraswati Vihar-II Colony, Vill- Rupwas Pargana & Tehsil- Dadri, Distt Gautam Budh Nagar, registered in revenue records of Bahi No- 1, Jild No-8413, Page No.79 to 96, Serial No.12460, Dated-17-06-2015 In the name of Mrs. Rinki Sharma W/o Mr. Rakesh Sharma.	5,04,000/- (Rupees Five Lakhs Four Thousand	10% of Reserve Price i.e Rs. 50,4,000/- (Rupees Fifty Thousand Four Hundred Only)
Date of Inspection of Immovable properties: -	11th September 2023.	1100 hrs – 1500 hrs		

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Shivalik Small Finance Bank, the Secured Creditor's website https://shivalikbank.com/auction\_of\_bank\_properties.php.

Important Terms & Conditions of Sale: The property is being sold on "as is where is, whatever there and without recourse basis as such sale is without any warranties and indemnities.

hours at Bank's Branch Office mentioned herein above. The intending bidders should send their sealed bids on the prescribed Bid Form to Be Authorised Officer of Bank.

(4) Bid to be submitted in sealed envelope mentioning the Bid for Auction property and accompanied with EMD (being 10% of the Bid Amount) by Demand Draft drawn in favour of "Shivalik Small Finance Bank Ltd", payable at Ghaziabad on or before 12th September 2023 till 5.00 p.m. at the abovementioned Branch office of Bank. Bids that are not filled up or Bids received beyond last date and time will be considered as invalid Bid and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, the same cannot be withdrawn.

bidders present at that time and thereafter the eligible bidders may be given an opportunity at the discretion of the Authorised officer to participate in interse bidding to enhance the offer price.

(7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of Shivalik Small Finance Bank Ltd, payable at Ghaziabad and the balance amount of sale price shall be paid by the successful bidder within 15 days from the date of confirmation of sale by Bank. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 25%, whatever the case may be, shall be forfeited by the Bank, if the successful bidder fails to adhere to the terms of sale or commits any default.

(9) The successful bidder shall bear all expenses including pending dues of any Development Authority if any/taxes/utility bills etc. to Municipal Corporation or any other authority/agency and fees payable for stamp duty/registration fee etc. for registration of the 'Sale Certificate'.

(10) The Authorised Officer reserves the absolute right and discretion to accept or reject any or all the offers/bids or adjourn/cancel the sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice.

(12) To the best of its knowledge and information, the Bank is not aware of any encumbrances on the property to be sold except of Bank. Interested parties should make their own assessment of the property to their satisfaction. Bank does not in any way guarantee or makes any representation about the fitness/title of the aforesaid property. For any other information, the Authorised Officer shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government or anybody in respect to the aforesaid property. The notice is hereby given to the Borrower (s) / Mortgager(s)/ Guarantor(s), to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the

(13) The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed

(14) Bank is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the Bank. (15) The Borrower (s) / Mortgager(s) / Guarantor(s) are hereby given STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 6(2), 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI.

ACT, published in Hindi & English Edition in Newspaper, to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with up-to-date interest and expenses within Thirty days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/guarantors/mortgagers pay the amount due to Bank, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. However, in such cases, Further interest will be charged as applicable, as per the Loan documents on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.

(16) The decision of the authorized officer is final binding and un-questionable. All bidders who submitted the bid shall be deemed to have read and understood the terms and condition of auction sale and be bound by them.

(17) For details, help, procedure and biding prospective bidders may contact. Mr. Naresh Yaday - 9212666710.

Please note that the secured creditor, the Bank is going to issue sale notice to all the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors by POST by their

The Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors are also hereby informed that he/they must take delivery of their household effects, lying inside the above premises/under the custody of the Bank, if any within 15 days of this publication, with prior permission, failing which the Bank shall have no liability/responsibility to the same and will dispose of at the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors risk and adjust the sale proceed towards dues

Date: 24-08-2023 Place: Noida

New Delhi

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE NOTICE FOR SALE OF MMOVABLE PROPERTIES

Appendix - IV-A [See Proviso to rule 8 (6)]

Whatever there is "on 12th September 2023, for recovery of Rs. 7,60,000/- (Rupees Seven Lakhs Sixty Thousand Only As on 30.09.2012 plus interest &

Auction Date and time of opening of Bid :- 12th September 2023 from 1300-1400 hrs Last Date for Submission of Offers / EMD: 11th September 2023 till 5.00 pm.

(2) The property/documents can be inspected on the above given date and time with the Authorised Officer of the Bank. (3) Bid document/Form containing all the general terms and conditions of sale can be obtained from Authorised Officer on any working day during office

(5) The sealed bids will be opened on 12th September 2023 at 11:00 hrs - 13:00 hrs at the above-mentioned Branch Office of Bank in the presence of the

(6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs.50,000/-. The property will not be sold below the Reserve Price set by the Authorised Officer.

(8) Bank does not take any responsibility to procure any permission/NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e., outstanding water/electric dues, property tax, Municipal/ Panchayat taxes or other charges if any.

(11) Bids once made shall not be cancelled or withdrawn.

immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.

addresses. In case, the same is not received by any of the parties, then this publication of sale notice may be treated as substituted mode of service.

If the Auction fails due to any reasons whatsoever, the Company would at liberty to sell the above mortgaged properties through private treaty as per provisions mandated under SARFAESIAct, 2002.

> Sd/- Authorised Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd.

financialexp.epag

CIN:L51395HP1985PLC012209. NOTICE OF 37™ ANNUAL GENERAL MEETING,

business as set forth in the Notice of the meeting. The Annual Report containing, inter alia, the notice convening the AGM setting out the business to be transacted there at, Balance Sheet, Statement of Profit & Loss for the financial year ending as on 31" March, 2023, the Auditor's Report thereon and the report of the Board of Directors have been sent to the members whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent(RTA). The aforesaid documents are also available on the company's website at www.bccfuba.com and the website of the

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

September, 2023. The detailed procedure/instructions for remote e-voting and e-voting provided during the

The Board of Directors has appointed Mr. Naresh Samkaria, Partner of Samkaria & Associates, Practicing Chartered Accountant, to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire e-voting process and e-voting at AGM in a fair and transparent manner. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain

> By Order of the Board For B C C Fuba India Limited

Date: 26.08.2023 Place: Kolkata

e-voting during the AGM.

Applicant Company

DATE: 26.09.2023

PIONEER PLASTIC INDUSTRIES LIMITED Regd. Off.: A-135, OKHLA INDUSTRIAL AREA

M/S. PIONEER PLASTIC INDUSTRIES LIMITED Mahabir Prasad Periwal (Director)

Registered Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India [CIN: L28100MP1979PLC049375]

(hereinafter referred to as 'KFin') at https://evoting.kfintech.com/

to receive electronic credit of their dividend entitlement.

In this regard, the Members are hereby further notified that:

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also

available at the Downloads section on. https://evoting.kfintech.com/ lelpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode who need assistance for any

https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx Please keep your most updated email id registered with the Company / your Depository Participant

> Ritesh Kumar Singh Company Secretary & Compliance Officer

# फस्टे कैपिटल इंडिया लिमिटेड

**फोन नं.** 011-43621200, फैक्स नं. 011-41501333

सीआईएन : U74899DL1994PLC057651, ई-मेल आईडी: nghai@landmarkholdings.in 29वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो

विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी एतदद्वारा सूचना दी गई है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 एवं उसके तहत जारी परिपत्रों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), शूक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को अपराह्न 3.00 बजे आईएसटी, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यवाही करने के लिए आयोजित

होने वाली है, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस,वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और ई–मेल के माध्यम से रिमोट वोटिंग / ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पास अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करे और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वालों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उद्देश्य के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यवाही पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने का तरीका जिसमें भौतिक शेयरधारकों या ऐसे शेयरधारक शामिल हैं जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उन्हें एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ऐसे मतदान के लिए लॉगिन विवरण के साथ एजीएम नोटिस की प्रति उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डीपी के साथ पंजीकत हैं।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए को delhi@linkintime.co.in पर या कंपनी को nghai@landmarkholdings.in पर लिखें। वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपरोक्त 29वीं एजीएम की नोटिस, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

(एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी।

की प्रतिभूति के लिए निम्नलिखित आस्तियां सीजीसीएल के पास बंधक रखी गई हैं।

कर्जदार (रो) / गारंटर (रो) का नाम

LNMEPAN000021777 एवं

LNMEPAN000056476)

कलदीप आर (कर्जदार)

स्थान : पानीपत तिथि : 26-08-2023

दण्ड का भागी होगा

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 25.08.2023

कृते फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड नरेश कुमार घई

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिन्सूला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013

2002 के नियम 3(1) के अधीन। अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पिटत उक

नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित

कर्जदार(रों) ("उक्त कर्जदार(रों)") से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशियां, जो नीचे भी दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी

उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा, उक्त कर्जदार(रों) को, एक बार पुनः, यहां नीचे दी गई राशियों का भुगतान सीजीसीएल को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि

से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक, ऋण अनुबंध के साथ पठित अन्य दस्तावेजो/प्रलेखों, यदि कोई, जो उक्त कर्जदार(रीं) द्वारा निष्पादित किय

गया है, के तहत देय आगे ब्याज सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने हेतू सूचना दी जाती है। उक्त कर्जदार(रों) द्वारा ऋण

भास्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। उक्त कर्जदार उक्त अधिनियम के तहत

सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त आस्तियां बिक्री, पटटा अथवा अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधाने

अथवा तदधीन विरचित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन हेतु अभिप्रेरित करता है, उक्त अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा / अथवा आर्थिक

ई-नीलामी विक्रय सूचना (सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत) अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(६) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति

हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल प्रतिभृत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सुचना। एतदहारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता/ओं एवं गारंटर/रों को निम्न वर्णितानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुचित किया जाता है कि **डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** 

(प्रतिभत ऋणदाता) के पास बंधककत अघोवर्णित संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण पहले ही 18 अक्टूबर 2021 को वितीय परिसंपत्ति के प्रतिभृतिकरण एवं

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया था। जबकि प्रतिभृत ऋणदाता जो अपने

प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कार्यरत हैं, विलीय परिसंपतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति डित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि)

निदेशक

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

**सर्किल कार्यालय :-** 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

तिथि और राशि

23-08-2023

20.12.638 / -

## 'फार्म नं, आईएनसी—25ए' क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 14 और कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

શુમમ્

करेगा। कर्जदारों तथा प्रतिभत आस्तियों का विवरण निम्नलिखित है :

जगत पुरी दो सीधी वाला मन्दिर

हाजीपुर, खसरा नं. 1969, लोनी,

गाजियाबाद, उ.प्र.-201003

पूर्वी दिल्ली-110051

कर्जदार(रों) के नाम

बदरुज्जमा, बीबी गुलेशा

जानकी, कनोजी लाल

कुमार, मधु बाला

तिथि : 25.08.2023

मैसर्स ग्रीन इंक्रा विंड फार्म एसेट्स लिमिटेड जेसका पंजीकृत कार्यालय : हवा फ्लोर, टॉवर सी बिल्डिंग नं ८, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002,

हरियाणा, इंडिया, में है.

करने की इच्छुक है।

आम जनता को एतदहारा सूचित किया जाता है कि कंपनी दिनांक 28 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने के लिए सक्षम बनाने हेतु ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन

कोई भी व्यक्ति जिसका कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो यह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दशति हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप र जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर मेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :-5वां फ्लोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया, कृत्ते आवेदक की ओर र

तिथि : 24 अगस्त 2023

प्रतिभत आस्ति का वर्णन

नंबर 281, खाता नंबर 328, खसरा नंबर 689 (2—1) में शामिल 02 कनाल 01 मरल

का 1/4 भाग है तथा ग्राम सींक, तहसील इसराना, पानीपत, हरियाणा–132103

रिथत है। चौहददी – पूरब : श्री राम किशन पूत्र श्री मांगा का मकान, पश्चिम : कॉमन

हस्ता./-, (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

स्ट्रीट, उत्तर : कॉमन स्ट्रीट, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति'

डीआईएन : 08005000 पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : 5वां फ्लोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया

हरता /

निदेशक

मलय एस्तोर

# DELHIUELA डेल्हीवरी लिमिटेड

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) दूरभाष : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

प्राइड अपार्टमेंट, (रेलवे लाइन के पार) ग्रीन पार्क, चिपियाना बुजुर्ग दादरी, गौतमबुद्ध

साथ, न्यू लायलपुर कॉलोनी, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा. दिल्ली

शभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

अधिकृत प्राधिकारी

परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश -201005

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 (इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 13(2) के तहत सूचना

यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 608-609, 6ठा तल, ब्लॉक-सी, अंसर

इम्पीरियल टॉवर, कम्युनिटी सेंटर, नारायण विहार, नई दिल्ली-110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' कहा जायेगा) द्वारा आपका ऋण खाता एनपीए घोषित कर

दिया गया है और आप अपने ऋण के विरुद्ध एसएचडीएफसीएल का कुल बकाया भुगतान करने के उत्तरदायी हैं। साथ ही आप आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि

सहित उपर्युक्त राशि पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज का भुगतान करने के भी उत्तरदायी हैं। अतः एतद्वारा हम आपसे एसएचडीएफसीएल के पूर्ण बकायों को इस सूचना की

तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हैं जिसमें असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपभोग

एवं तिथि

तथा 18-08-2023

( पूर्व नाम डेल्हीवरी प्राइवेट लिमिटेड )

CIN: L63090DL2011PLC221234

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') से आयोजित होने वाली 12वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

सदस्यगण कृपया नोट करें कि वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') की सूचना ('सूचना') में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम'') के सभी लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/2/ सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और इस संबंध में जारी अनुवर्ती परिपत्र, नवीनतम जारी परिपत्र 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और सेबी द्वारा जारी परिपन्न सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/ सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और इस संबंध में जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों (संयुक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में डेल्हीवरी लिमिटेड ('कंपनी') की 12वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 27 सितम्बर, 2023, को प्रात: 11.00 बजे (आईएसटी) वीसी/ओएवीएम के द्वारा आयोजित की जाएगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन हेत् की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 ('वार्षिक रिपोर्ट') इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उचित समय पर उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.delhivery.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com तथा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट यथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('लिंक इनटाइम') की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया:

सदस्यगण सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('ई-बोटिंग') के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। डिमेटिरियलाज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए दूरस्थ वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग') सहित वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में दी गई है। एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिकली वोट देने के लिए सक्षम होंगे।

ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रिया:

क. भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण लिंक https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html पर क्लिक करके उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे विवरण जैसे नाम, फोलियो नम्बर सर्टिफिकेट नम्बर, पैन, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी प्रदान करें और पैन, आधार कार्ड, शेयर प्रमाणपत्र की इमेज या पीडीएफ या जेपीईजी प्रारूप (। एमबी तक) में फॉर्म आईएसआर-। अपलोड करें। अपेक्षितशेयर विवरण जमा करने पर सदस्य को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे सत्यापन के लिए लिंक पर दर्ज करना है। किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण लिंक इनटाइम को ई-मेल rmt.helpdesk@linkintime.co.in पर मेल भेज सकते हैं।

 छलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण कंपनी से इलेक्ट्रॉनिकली सभी पत्रचार प्राप्त करने के लिए अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करके डिमेट होल्डिंग के संबंध में संबंधित डीपी के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकत/अपडेट कराएं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना और विशेषकर एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया के बारे में भली-भांति पढ़ लें।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते डेल्हीवरी लिमिटेड

विवेक कुमार

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः एन24-एन34, एस24, एस34, एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स सेंटर-॥, सामने गेट 6 कार्गो टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037 ई-मेलः corporateaffairs@delhivery.com; वेबसाइटः www.delhivery.com

**DMI** HOUSING FINANCE

PRIVATE LIMITED

की धारा 13(4) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न वर्णित संपत्ति को निम्नांकित बकाया राशि तथा भावी ब्याज, शुल्कों एवं लागतों इत्यादि की वसली करने के लिये ई-नीलामी पर रखेंगे। संपत्तियों का विक्रय "जैसी है जहां है वहां जो कुछ भी है एवं बिना संसाधन के आधार" पर किया जा रहा है, क्योंकि यह विक्रय किसी भी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना है। निम्न उल्लिखित संपत्तियां "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauctions.com द्वारा वेची जाएंगी। निरीक्षण तिथि एवं समय : 17/09/2023 को मध्या 11.00 बजे से अप 03.00 बजे तक ई-मीलामी की तिथि एवं समय : 6/10/2023 को मध्या. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक बोली / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 23/09/2023 को अप. 04.00 बजे

जवारकर्ता का नाम	बकाया चारी	प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण	(ক.)	
<b>श्रीमती बीना श्रीवास्तव</b> पत्नी श्री	ऋण खाता सं. एचएफसी००००१९९२६७८ और आवेदन	"प्लॉट नं. ६ए , अरजी नं. 182 का	आरक्षित मूल्य	ईएमडी 10%
	सं. जीजी309198 के माध्यम से <b>रु. 10,47,902/—</b> (रुपये दस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दो मात्र) 30—8—2021 के अनुसार			₹ 49,000/-

। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणमार नहीं है। हालाँकि, इच्छक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, नीलामी पर रखी गई संपत्ति(यों) के ऋणभारों, स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रमावित करनेवाले दावों / अधिकारों / बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पुछताछ कर लेगी चाहिए। ई—गीलामी विज्ञापन बेंक की किसी भी प्रतिबद्धता अथवा किसी अन्यायेदन का गठन नहीं करता है और न ही इसे गठन करता हुआ माना जाएगा। संपत्ति को उन सभी विद्यमान एवं भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है, जो बैंक को ज्ञात भी हो सकते हैं अथवा अज्ञात भी। प्राविकृत अधिकारी / प्रतिभृत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों / बकाया वैधानिक राशियों / करों इत्यादि हेतु किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे।

१. यह बोलीदाताओं का उत्तरदायित्व होगा कि ये बोली जमा करने से पूर्व परिसंपत्ति एवं विनिर्देशन के बारे में जांच-पडताल निरीक्षण कर लें तथा स्वयं को संतुष्ट कर लें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति(यों) के निरीक्षण की अनुमति इच्छ्क बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के समक्ष चल्लिखितानुसार साइटों पर दी जाएगी। 3. इच्छक बोलीदाताओं को अपनी बयाना राशि जमा (ईएमडी) विवरण तथा प्रलेख लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेब पोर्टल : https://www.bankeauctions.com हारा जमा करना होगा (उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम पंजीकृत करके नि.शुरुक प्राप्त किया जा सकता है)। इच्छ्क बोलीदातागण जो लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, खेटा अपलोड करने, बोली प्रलेख जमा करने, ऑनलाइन पारस्परिक बोलीदान इत्यादि पर प्रशिक्षण / प्रदर्शन प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता अनुमव करते हैं, वे मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं, 68, सेक्टर 44 गुडगांव, हरियाणा, पिन 122003, ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क नंबर : 7291981124, 25, 26, संपर्क हेतु व्यक्ति : श्री विनोद चीहान, संपर्क नंबर +919813887931 और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारी : श्री आशीष पांडे, मोबाइल नं: 8081131100 एवं ई–मेल आईडी: ashish.pandey@dmihousingfinance.in से सोमवार से शुक्रवार तक कार्यकारी घंटों के दौरान संपर्क कर सकते हैं।

4. ईएमडी का नुगतान, एनईएफटी/आरटीजीएस (जिसकी रसीद बोली के साथ संलग्न होगी) के माध्यम से 23 सितंबर 2023 को अप. 04.00 बजे तक एचढीएफसी बैक लिमिटेड, बैक हाउस शाखा, गुरुग्राम के निम्नलिखित खाते में, खाता सं. 00030330020098, खाता का नाम : डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आईएफएससी कोव : एचबीएफसी0000572 में अथ्वा 'बीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड' के पत्न में आहरित विमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से हो तथा प्राधिकृत अधिकारी को एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृती तल, 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 के पते पर लिखकर अग्रसारित हो। 5. परिसंपत्तियों को आरक्षित मृल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी

को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्ताव(वाँ) को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई—नीलामी को स्थगित/निरस्त/समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है। 6. सफल बोलीदाता की ईएमढी आंशिक बिक्री विचार के लिए रखी जाएगी और असफल बोलीदाताओं की ईएमढी नीलामी की तिथि से 7 कार्यदिवसों के अंदर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मृत्य का 25 प्रतिशत तुरंत अर्थात् उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75 प्रतिशत विक्रय की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के मीतर या ऐसी किसी विस्तारित अवधि, जिस पर लिखित में सहमति हो और यह कंवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्मर हो, के अंदर जमा करना होगा। 7. बोली जमा करने और ई-नीलामी में भाग लेने से फहले विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारी वेबसाइट https://www.dmihousingfinance.in और https://www.bankeauctions.com 幸國 )

8. उधारकर्ता / गारंटर इसे प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 8(6) के अंतर्गत सूचना के रूप में मान सकते हैं और एतदहारा उन्हें इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के अंदर उपरोक्त उल्लिखितानुसार भुगतान-दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करने का एक अतिम एवं निर्णायक अवसर दिया जाता है। ऐसा करने में विफल रहने पर परिसंपत्तियों को ऊपर उठिलखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार बेच दिया जायेगा। दिनांक : 25-अगस्त-2023, स्थान : कानपुर, उत्तर प्रदेश

हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, ढीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइयेट लिमिटेड

## केनरा बैंक 🥪 Canara Bank Together We can िसिडिकेट | Syndicate

ई-नीलामी अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना निविदा द्वारा

क्षेत्रीय कार्यालय-2: 11/9, सिल्बर लाइन बिल्डिंग, वीआईपी रोड, सिविल लाइन्स, कानपुर

तिथि एवं समय

तिथि: 24 अगस्त, 2023

स्थानः गुरूग्राम

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सुचना। निविदा दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि : 26.09.2023, शाम 5.00 बजे तक, ई-नीलामी की तिथि और समय: 27.09.2023, प्रात: 11:00 से

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी

/ प्रभारित की गई है, जिसका प्रलक्षित कब्जा केनरा बैंक के अधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है बैंक की बिक्री दिनांक 27.09.2023 को 'जहाँ है जैसा है' 'जैसा है जो है' एवं 'जो कछ भी है' के आधार पर की जायेगी।

of the G	on e (4 on ago in e ar onais as an o	14-111		
क्र.	ऋणियों / जमानतकताओं	अचल सम्पत्तियों का विवरण /	घरोहर राशि (रु0)	आफर प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय
सं.	का नाम एवं पता/ बकाया धनराशि/शाखा	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की

The second secon	() L/0000			
शाखाः उरइ, माबाइलः 99	53562826, ईमेल — cb4939@canarab	ank.com		
<ol> <li>श्रीमती उर्मिला देवी वर्मा पत्नी श्री कमलेश कुमार</li> </ol>	आवासीय मकान नं. (पुराना) ४८९ / 2 नया २२२८ का यूआरईएम मोहल्ला राजेन्द्र नगर उरई जिला	₹0 9,40,500.00	26.09.2023 सायं 5:00 बजे तक	
2. श्री दीपक कुमार वर्मा पुत्र श्री कमलेश कुमार उपरोक्त दोनो का पताः म.नं. 2475 राजेन्द्र नगर उरई जिला जालीन उ०प्र० 285001	का स्वामित्व, चौहद्दी : पूर्व: रास्ता खडण्जा, पश्चिम: गुर्जर मकान, उत्तर: छोटे लाल का	₹0 94,050.00	27.09.2023 समय प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक (प्रत्येक के लिए 5 मिनट अतिस्वित आटो एक्सटेंशन के साथ विक्री होने तक)	
1. मेसर्स जय मां काली हैण्डलम प्रो0 श्री ब्रिज	आवासीय मकान नं 1076 का यआरईएम	₹0	26.09.2023	

पताः राजेन्द्र नगर पोस्ट आफिस के सामने, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश 285001 2. श्री ब्रिज मोहन पत्र श्री शकलाल 3. श्रीमती अंग्री वर्मा पत्नी श्री ब्रिज मोहन वर्मा

**पता 2 एवं 3 का**: म.नं. 811 जे 505 इन्द्रा नगर उरह जिला जालीन उत्तर प्रदेश 285001 कुल बकाया : रू० 9,38,047.00 दिनांक

05.05.2019 (अन्य ब्याज व मूल्य एवं खर्चे यदि कोई हो तो उसे घटाया जायेगा)

साय 5:00 बजे तक 16,61,000.00 मोहल्ला इन्द्रा नगर शहर उरई जिला जालौन

27.09.2023 उत्तर प्रदेश में स्थित, क्षेत्रफल 97.55 वर्गमी. 1,66,100.00 समय प्रात: 11:00 बजे श्रीमती अंग्री देवी पत्नी श्री ब्रिज मोहन वर्मा का से अपराहन 12:30 बजे तक (प्रत्येक के लिए 5 मिनट चौहद्दी : पूर्वः रास्ता खडण्जा, पश्चिमः मुन्ना अतिरिक्त आटो एक्सटेंशन यागिक का मकान, उत्तरः रास्ता सीसी, दक्षिणः के साथ विक्री होने तक) तुलाराम का मकान

## नोटः 30 दिन की विक्रय सूचना

कब्जे का प्रकारः सांकेतिक

अन्य नियम व शर्ते - 1. नीलामी / बोली की प्रक्रिया सिर्फ आन लाइन इलेक्ट्रानिक माध्यम से वेबसाइट www.indianbankeauction.com के जरिये ही होगी। ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट को जरूर देख लें। 2. सम्पत्ति आरक्षित मुल्य से कम पर नहीं बेची जार्येगी। नीलामी प्रक्रिया के दौरान सहभागी निविदाकर्ता अपने आफर को सुधार सकते है। 3. आरक्षित मुल्य की 10 प्रतिशत धरोहरे राशि प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी है याँ संबंधित केनरा बैंक के खातें में आरटीजीएस / अनईएफटी / फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जायेगी । Orai A/c A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0004939 जो में दिनोक 26. 09.2023 को साय 5 बजे तक या इसके पूर्व जमा कर दें। बिक्री की सूचना सफल बोलीकर्ता को प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक शाखा उरई की सहमति के बाद दे दी जायेगी। घरोहर राशि ज्यादा होने पर सफल बोलीकर्ता के खाते में समायोजित कर दी जायेगी। 4. अन्य विवरण के लिए प्रबंधक केनरा बैंक, शाखा उरई (Ph. No 9953562826) e-mail id: cb4939@canarabank.com अथवा सर्विस प्रोवाईडर M/s CANBANK COMPUTER SERVICES LTD (CCSL) Mr. Pratap Kanjilal & Mr. D D Pakhare, Contact no. 9832952602/9911293517/8898418010/080-23469665/9480691777; Email id: eauction@ccsl.co.in से सम्पर्क करें।

दिनांक 26.08.2023

स्थान : कानपुर

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक



इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: पाँचवीं मंजिल, इमारत नं. 27, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001

CIN:L65922DL2005PLC136029 ई- मेल: homeloans@indiabulls.com., टेलि: 011-43532950,

फैक्स: 011-43532947, वेबसाईट: http://www.indiabullshomeloans.com

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए

विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी)

संशोधन नियम 2016 ('नियम') जिसे भारत सरकार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी विभिन्न अधिसचनाओं के साथ पढा जाए. के अनुसार यह नोटिस जारी किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार सात वर्षो से या उससे अधिक

भुगतान न किए गए या दावा न किए गये लाभांश के संबंध में सभी शेयर निवेशक शिक्षा और संरंक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर आईईपीएफ सन्देही खाते में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, वो कैसे भूगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश के मूल्य को 18 नवंबर, 2023 को या उससे पहले दावा कर सकते है।

सभी भुगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश का वार्षिक विवरण और शेयरधारको का संपर्ण विवरण जिनमें उनके फोलियो नं. या डीपी आइडी/ ग्राहक आईडी शामिल है जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी है, यह सभी जानकारी कंपनी वेबसाईट www.indiabullshomeloans.com पर उपलब्ध है।

सभी शेयरधारक इस बात पे ध्यान दें कि भौतिक रुपमें और विमुद्रीकृत रूप में रखे गए शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, इन शेयरोको अर्जित लाभ के साथ, यदी कोई हो तो, वह नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा दावा कर सकते हैं।

शेयरधारक इस बात पे ध्यान दें कि नियमों के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ स्थानांतरित करने के उदेश्य से मुल शेयर सर्टिफिकेट के बदले में डिप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करेगी. जिस पर मूल शेयर सर्टिफिकेट स्वचालित रुप से रद्द हो जाएंगे।

यदि 18 नवंबर, 2023 तक भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारको से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन शेयरो और लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी उचित कारवाई शुरू करेगी।

इस संबंध में यदि कोई शेयरधारक को पूछताछ करनी हो तो कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजंट, केफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्रीमती सी शोभा आनंद, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं 31- 32, गाचीबोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 टॉल फ्री:1800-309-4001; ईमेल:einward.ris@kfintech.com, पर संपर्क कर सकते है।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 24.08.2023

अमित जैन कंपनी सचीव और कंप्लायंस ओफिसर

### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त विजय कुमार पुत्र बृज किशोर सी-132, चुरगी नं.2, मुस्लिम कैम्प, लाल कुआँ, पुल प्रहलादपुर, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46/2020 धारा 33/52 दिल्ली एक्साइज एक्ट एण्ड 78 जे,जे एक्ट, थाना कालिंदी कंज, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त विजय कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त विजय कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46/2020 धारा 33/52 दिल्ली एक्साइज एक्ट एण्ड 78 जे.जे एक्ट, थाना कालिंदी कुंज, दिल्ली के उक्त अभियुक्त विजय कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 26.09.2023 को या उससे पूर्व हाजिर हो। आदेशानुसार हिमांश तंवर

महानगर वण्डाधिकारी-10, कमरा नं,307, तीसरी मंजिल, साउथ ईस्ट जिला दि.पु./9049/दक्षिण पूर्व/2023 साकेत कोर्टस, नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बेंक

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय तल, मेट्क्सि मॉल, सेक्टर-४, जवाहर नगर, जयपुर-302004 | +91-0141-2657811, 2657989 | ईमेल आईडी:- sbi.32069@sbi.co.in

**आधिपत्य सूचना** परिशिष्ट-IV नियम 8(I) देखें

प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54 ) } के अधीन और धारा 13 ( 12 ) तथा संपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन नियम के {नियम 3} के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी श्रीमती रामावती चेरीटेबल टस्ट जरिये चेयरमैन श्रीमती सरोज उपाध्याय पत्नी श्री विनोद उपाध्याय को सूचना में उल्लेखित रकम रू. 12,67,18,810.88 अक्षरे बारह करोड़ **सडसठ लाख अठारह हजार आठ सौ दस रूपए एवं अट्टासी पैसे मात्र (दिनांक 17.05.2023 को बकाया)** तथा उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों की राशि को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्सदत करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देय सूचना दिनांक 18.05.2023 को जारी किया गया था । जिससे ऋणी श्रीमती रामावती चेरीटेबल टस्ट जरिये चेयरमैन श्रीमती सरोज उपाध्याय पत्नी श्री विनोद उपाध्याय को बकाया राशि **रू. 12,67, 18,810.88 अक्षरे बारह करो**ड् **सडसठ लाख अठारह हजार आठ सौ दस रूपए एवं अट्टासी पैसे मात्र (दिनांक 17.05.2023 को बकाया)** तथा उस फ भविष्य के ब्याज व खर्चों की राशि को चुकाने का अनुरोध किया था । ऋणी/जमानती द्वारा यह राशि न चूका पाने के कारण ऋर्ण / जमानती एवम आम जनता को एतंतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के उक्त नियमवाली के नियम १ प्रतिभृति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों क प्रयोग करते हुए **22 अगस्त वर्ष 2023** को यहाँ नीचे दिए गए विवरण वाली संपत्ति का कब्जा / स्वामित्व ले लिया गया है । ऋर्ण / जमानती को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता लेनदेन न करे और इस संपति में कोई लेनदेन न करे और इस संपति में किसी भी प्रकार का लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के राशि **रू. 12,67,18,810.88 (अक्षरे** बारह करोड़ सडसठ लाख अठारह हजार आठ सौ दस रूपए एवं अट्टासी पैसे मात्र (दिनांक 17.05.2023 को बकाया) तथ उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों के अधीन होगा। **उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृति आस्तियो के मोचन के लिए उपलब्ध समय के** सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की और आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण . साम्यिक बंधक का सब हिस्सा और खंड (जिस पर स्कूल भवन बना है) जो कि श्री विनोद उपाध्याय पुत्र श्री राम चरण उपाध्याय के नाम है, जो कि खसरा नं. 282, ग्राम मकर्मतपुर सिकरोद, आई टी सी फैक्ट्री के सामने, मेरठ रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 19120 वर्ग मीटर है एवम जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है **पश्चिम में:-** खसरा नं. 287 **उत्तर में:-** खसरा नं. 284 2. साम्यिक बंधक का सब हिस्सा और खंड जो कि श्रीमती सरोज उपाध्याय पत्नी श्री विनोद उपाध्याय के नाम आवासीय भूखप जो कि प्लाट नं. ए डी - 25, शास्त्रीपुरम, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 392 वर्ग मीटर है एवम जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है। **पर्व में:-** प्लाट नं. ए डी-२6 **पश्चिम में:-** प्लाट नं. ए डी-२4 **उत्तर में:-** ए टाइप प्लाट

3. साम्यिक बंधक का सब हिस्सा और खंड जो कि श्री विनोद उपाध्याय पुत्र श्री राम चरण उपाध्याय के नाम आवासीय भूखण जो कि प्लाट नं. ए डी - 26, शास्त्रीपुरम, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 392 वर्ग **पूर्व में:**- रोड पश्चिम में:- प्लाट नं. ए डी-25 उत्तर में:- ए टाइप प्लाट

दिनांक : 22/08/2023 | स्थान : जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक

**दक्षिण में:-** रोड

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेश लिसिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, **TATA** लोअर परेल, मुंबई-400013 सीआईएन नंबर U67190MH2008PLC187552 कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबिक, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने नाते वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमे उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चकाने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य तौर पर जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पिठत धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते नीचे वर्णित संपत्ति व

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को, संपत्ति के साथ सौदा न करने व लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड को नीचे निर्दिष्ट राशि, उसके साथ उस पर ब्याज और मांग सूचना की तारीख से दंडात्मक ब्याज, शूल्क, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 व

उप–धारा (८) के प्रावधानी के लिए उधारकता का ध्यान आकाषत किया जाता है।							
ऋण खाता संख्याः	बाध्यताधारी (ओ)/ कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि के अनुसार राशि	कब्जा तिथिः				
9556220	स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल पुत्र श्री राम बाब् पिप्पल अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल और श्री हेमंत कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल (सह—उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी) और श्री धर्म वीर पुत्र स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल जितेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल	के अनुसार रु. 1,02,23,225 / – (रुपए एक करोड़ दो लाख तेईस हजार दो हजार दे					

प्रतिभूति संपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरणः बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य स्विधाओं के साथ मौजा नाराइच, सती नगर के नाम से जाना जाने वाला इलाका, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित आवासीय भूखंड (68'x43') का वह समस्त टुकड़ा और अंश, जिसका माप 328 वर्ग गज यानी 274.24 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 3870/1 में शामिल है , । चौहद्दी : पूर्व – किताब सिंह का घर, पश्चिम – सड़क 20', उत्तर – भगवान सिंह क घर, दक्षिण- 05' की गली।

दिनांक:- 26/08/2023 स्थान:- आगरा (उत्तर प्रदेश)

हस्ता /– प्राधिकृत अधिकारी, कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड



B C C FUBA INDIA LIMITED CIN:L51395HP1985PLC012209. Regd. Office:4 KM Swarghat Road, Nalagarh 174101, Distt Solan, (H.P.)

Tel. No.: +91-011-49287223, Website: www.bccfuba.com,

Email id : delhi@bccfuba.com

NOTICE OF 37™ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 20th day of September, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, 02/2022 dated 5th May, 2022 and Circular issued on February 2022 dated 30 May, 2022 read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 02/2021 dated 13" January, 2021, 19/2021 dated 8" December, 2021 and 21/2021 dated 14" December, 2021 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) to conduct the business as set forth in the Notice of the meeting.

The Annual Report containing, inter alia, the notice convening the AGM setting out the business to be transacted there at, Balance Sheet, Statement of Profit & Loss for the financial year ending as on 31" March, 2023, the Auditor's Report thereon and the report of the Board of Directors have been sent to the members whose email addresses are egistered with the Company/Registrar & Transfer Agent(RTA). The aforesaid documents are also available on the company's website at www.bccfuba.com and the website of the Stock exchange at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing to its members, facility to exercise their vote on resolutions as set out in the Notice. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited (LIIPL) for providing remote e-voting facility. The facility of voting through electronic means will also be available at the AGM and only those members who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote at the AGM. The details and instructions for remote e-voting and voting at the AGM forms part of Notice

emailed to the shareholders. The remote e-voting period will commence on Sunday, 17" September, 2023 at 9:00 A.M. and will end on Tuesday, 19" September, 2023 at 5.00 P.M. A person whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on cut-off i.e. Wednesday,13°

September, 2023. The detailed procedure/instructions for remote e-voting and e-voting provided during the meeting are provided in the Notice of Annual General Meeting and members holding shares either in physical or demat form, as on the cut-off date may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of AGM. The members who have cast their vote through remote e-voting, prior to the meeting can attend the AGM but are not entitled to cast their vote again. In case of any queries or issues regarding e-voting, the members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email

The Board of Directors has appointed Mr. Naresh Samkaria, Partner of Samkaria & Associates, Practicing Chartered Accountant, to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire e-voting process and e-voting at AGM in a fair and transparent manner.

to enotices@linkintime.co.in or Call us: - Tel: 022 - 49186000.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 14th September, 2023 to Wednesday, 20th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of this AGM.

In case shareholders/ members have any queries regarding login, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.

> By Order of the Board For B C C Fuba India Limited

Date: 26-08-2023 Dinesh Kumar Yadav Company Secretary & Compliance Officer Place: New Delhi

Chandigarh www.readwhere.com